



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 114]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 4, 2005/माघ 15, 1926

No. 114]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 4, 2005/MAGHA 15, 1926

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2005

का.आ. 162(अ).—केन्द्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1192(अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2001 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 79 का 14.000 कि.मी. से 182.000 कि.मी. (राजस्थान राज्य में नसीराबाद से चित्तौड़गढ़) खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा था।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग खंड और स्थायी पुल लोक वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए फीस) नियम, 1997 के नियम 3, नियम 5 और नियम 11 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित करती है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के 81.000 कि.मी. से 163.900 कि.मी. तक के खंड के प्रयोग के लिए उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) और स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट दरों पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विभागीय तौर पर अथवा प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर निजी ठेकेदार के माध्यम से केंद्र सरकार की ओर से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट यांत्रिक यानों पर फीस उदग्रहीत और संदत्त की जाएगी। यह फीस इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख अथवा चार लेन के खंड को यातायात के लिए खोले जाने की तारीख से, इनमें जो भी पश्चात्तवर्ती हो, नियमित आधार पर संगृहीत की जाएगी। फीस दरें राष्ट्रीय राजमार्ग (फीस की दर) नियम, 1997 के अनुसार पुनरीक्षण के अधीन होंगी।

अनुसूची

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 79 के 81.000 कि.मी. से 163.900 कि.मी. तक चार लेन वाले खंड के उपयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली फीस की दर ।

क्रम संख्याक	यान का विवरण	एकमार्गीय यात्रा के लिए वाहन फीस दर (रूपये)	दिन में अनेक यात्राओं के लिए वाहन फीस दर (रूपये)
1.	2.	3.	4.
1.	कार या जीप या वैन	40	60
2.	हल्के वाणिज्यिक वाहन	75	113
3.	ट्रक या बस	155	233
4.	भारी निर्माण मशीनरी और मिट्टी हटाने वाला उपस्कर	330	495

नोट:-

1. जब उसी यांत्रिक यान को एक दिन में एक से अधिक बार पथकर द्वार को पार करना है तो उपयोक्ता को यह विकल्प होगा कि वह पहली बार ही द्वार पार करते समय अनुसूची में दी गई दरों पर अनेक बार यात्रा के लिए फीस का संदाय कर दे या यदि यान को पूर्ण मास में लगातार या प्रायः बार-बार उक्त खंड का प्रयोग करना पड़ता है तो यान का स्वामी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट उसको लागू एकल दरों के तीस गुणा के बराबर प्रभासों का संदाय करके मासिक पास प्राप्त कर सकता है ।

2. निम्नलिखित प्रकार के यानों से पूर्वोक्त अनुसूची में ऊपर विनिर्दिष्ट फीस नहीं ली जाएगी, अर्थात् :-

(i) यान -

(अ) जो "अति महत्वपूर्ण व्यक्ति" प्रतीक, वाले या निम्नलिखित से संबंधित सरकारी वाहन हैं :-

(क) भारत के राष्ट्रपति;

(ख) भारत के उपराष्ट्रपति;

(ग) राज्य के राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल;

(घ) भारत के शासकीय दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति;

(ङ) "सी डी"/ "सी सी" नंबर प्लेटों की कारों का उपयोग करने वाले भारत में रह रहे विदेशी राजनायिक;

(च) राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य विधान परिषद के सभापति या राज्य विधान सभा के अध्यक्ष या केंद्रीय या राज्य के मंत्री या लोक सभा या राज्य सभा या राज्य विधानमंडलों में प्रतिपक्ष के नेता जिनका दर्जा कैबिनेट मंत्री का हो यदि वे वाहन में हों; या

- (छ) संसद सदस्य या अपने-अपने राज्यों में राज्य की विधान सभा के सदस्य या राज्य की विधान परिषद के सदस्य यदि वह, यथास्थिति, संसद या राज्य के संबंधित विधानमंडल, द्वारा जारी पहचान पत्र प्रस्तुत करते हैं;
- (आ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुरस्कार के प्रमाणन के संबंध में जारी परिचय पत्र प्रस्तुत करने पर वीरता पुरस्कार अर्थात् परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र विजेता;
- (ii) रक्षा यान, पुलिस यान, अग्नि शमन यान, एम्बुलेंस, अन्त्येष्टि यान, डाक और तार विभाग के यान, केंद्रीय और राज्य सरकार के कार्यस्थ यान ।
3. फीस की दर, फीस के संचाय से छूट प्राप्त यानों के प्रवर्ग और उस प्राधिकारी का नाम, पता, टेलीफोन संख्या, जिसे शिकायत, यदि कोई हो, संबोधित की जानी चाहिए, पथकर चौकी से 500 मी. आगे, पथकर चौकी से 100 मी. आगे और पथकर चौकी पर भी सहजदृश्य रूप से और प्रमुख रूप से संप्रदर्शित किया जाएगा । संप्रदर्शन बोर्ड की ऊंचाई और अक्षरों का आकार इस प्रकार का होगा कि चालकों के लिए संप्रदर्शन बोर्ड का पढ़ना सहज हो और इसे अंग्रेजी, हिंदी और उस खंड की क्षेत्रीय भाषा में स्पष्ट रूप से लिख कर अथवा छपाई करके बोर्डों पर प्रदर्शित करना होगा ।
4. यह फीस पथकर चौकी 163.650 कि.मी पर ही संगृहीत की जाएगी ।

[फा. सं. आर डब्ल्यू/एन एच-37011/1/2004-पी आई सी]

आलोक रावत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2005

S.O. 162(E).—Whereas, vide notification of the Government of India in the then Ministry of Road Transport and Highways number S.O.1192 (E), dated 3rd December, 2001 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government entrusted the stretches from Km 14.000 to Km 182.000 (Nasirabad to Chittorgarh section in the State of Rajasthan) of National Highway No. 79 to the National Highways Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rules 3, 5 and 11 of the National Highways (Fees for the use of National Highways Section and Permanent Bridge – Public Funded Projects), Rules, 1997, the Central Government hereby notifies that there shall be levied and collected by the National Highways Authority of India departmentally or through private contractors on the basis of the competitive bidding on behalf of Central Government, Fees on mechanical vehicles specified in column (2) of the Schedule annexed hereto for the use of the stretches from Km 81.000 to

Km 163.900 of the National Highway No.79 in the State of Rajasthan at the rates specified in columns (3) and (4) of the said Schedule. The fee shall be collected in perpetuity from the date of publication of this notification in the Official Gazette or date of opening of the said four laned section to traffic whichever is later. The fee rates are subject to revision as per the National Highways (Rate of fee) Rules, 1997.

SCHEDULE

Rates of fee to be recovered from the users of four-laned stretch from km 81.000 to km 163.900 of National Highway No. 79.

Serial Number	Particulars of vehicles	Fee rate for vehicle for one way trip in a day (rupees)	Fee rate for vehicle for multiple trips in a day (rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Car or Jeep or Van	40	60
2.	Light Commercial Vehicle (LCV)	75	113
3.	Truck or Bus	155	233
4.	Heavy Construction Machinery and Earth Moving Equipment	330	495

Note :-

1. When the same mechanical vehicle has to cross the said stretch of the National Highway more than once in a day, the user shall have the option to pay the fee of multiple trips at the rates as given in the Schedule above while crossing the gate in the first trip itself or if the vehicle has to use the said stretch continuously and frequently for the entire month or even beyond that, the vehicle owner can have a monthly pass on payment of charges equal to thirty times single rates applicable to it as specified in the Schedule.

2. The following types of vehicles shall be exempted from the fees specified above in the Schedule, namely :-

(i) Vehicles -

(A) having "VIP" symbols, or Officially belonging to:-

(a) the President of India

(b) the Vice President of India ;

- (c) the Governor of a state or Lt. Governor of a Union Territory ;
- (d) the Foreign Dignitaries on State visit to India ;
- (e) the Foreign Diplomats stationed in India using cars with "CD" or "CC" number plates:-
- (f) the Chairman of Rajya Sabha or Speaker of Lok Sabha or Chairman of a State Legislative Council or Speaker of a State Legislative Assembly or a Minister for the Union or State, or Leaders of Opposition in Lok Sabha or Rajya Sabha or State Legislatures, having the status of Cabinet Minister, if he is sitting in the vehicle; or
- (g) a Member of Parliament or a Member of Legislative Assembly of a State or a Member of Legislative Council of a State, in the respective States, if he produces his identity card issued by the Parliament or concerned Legislature of a State, as the case may be;

(B) belonging to winner of Gallantry awards such as Param Vir Chakra, Ashok Chakra, Maha Vir Chakra, Kirti Chakra, Vir Chakra and Shaurya Chakra, if such awardee produces his photo identity card duly authenticated by the Competent Authority for such Award;

(ii) Defence vehicles, Police vehicles, Fire-fighting vehicles, Ambulances, Funeral vans, vehicles of the Department of Posts and Telegraphs and Central and State Government vehicles on duty.

3. The rates of fee, the categories of vehicles exempted from payment of fee and the name, address and telephone number of the authority to whom complaints, if any, should be addressed, shall be conspicuously and prominently displayed 500 meters ahead of the toll booths, 100 meters ahead of the toll booths and at the toll booths also, the height of the display boards and size of letters being such that it is easy for drivers to read the display boards and they shall be legibly written or printed in English, Hindi and the regional language of the area in which the stretch is situated.

4. The fees shall be collected at the toll booth at Km 163.650.

[F No. RW/NH-37011/1/2004-PIC]

ALOK RAWAT, Jt. Secy.

386 927/2005